



क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है?

आधा दिन भी नहीं बीता...
और थकान महसूस हो?

काम में मन नहीं लगता,
बार-बार ध्यान भटक
जाता है?

सुबह उठते ही लगे...
फिर से सो जाऊं?

 अगर आपका जवाब हां है। (If your answer is yes)

तो हो सकता है आपका ESF score कम हो!

Check Your ESF (Energy • Stamina • Focus) Score!



USE THE ESF TOOL >>>>>

1 QR को scan करें।

2 Face scan करें और अपनी details भरें।

3 अपना Energy, Stamina और Focus Score देखें।



ESF Scanner:

आपका Energy, Stamina और Focus जानने का आसान तरीका!

ESF Scanner एक खास **Digital AI tool** है जो आपके चेहरे के ज़रिए आपकी **Energy (ऊर्जा), Stamina (ताकत) और Focus (एकाग्रता)** को scan करता है। यह tool **Python Flask, OpenCV, PyTorch, LinkNet Segmentation और MediaPipe** जैसे advanced technologies पर बना है, जो चेहरे से face scan करके blood की गति से जुड़ी जानकारी (**BVP – Blood Volume Pulse**) को पहचानता है।

कैसे बताता है Energy, Stamina और Focus?



Energy (ऊर्जा)

Scanner आपके चेहरे से मिलने वाले रक्त के बदलाव और heartbeat (दिल की धड़कन) की गति को देखकर यह अंदाज़ा लगाता है कि आपकी body में कितनी **activeness और energy** है।

Stamina (ताकत)

सांस की गहराई, चेहरे की थकान और **BVP (Blood Volume Pulse)** signals के ज़रिए यह पता चलता है कि आपकी शरीर की अंधरुनि ताकत और stress किस स्तर पर है।

Focus (ध्यान / एकाग्रता)

यह tool आपकी आँखों की movement और चेहरे के **micro-expressions** के आधार पर आपके focus और एकाग्रता का score बताता है – **low, medium and high**.

यह scanning पूरी तरह से **non-invasive (बिना छुए)** होती है – और कुछ ही seconds में आपको बताती है कि आपकी **energy, stamina और focus** की current हालत कैसी है।

ज़रूरी जानकारी:

ESF स्कैनर एक सहायक टूल है जो आपकी ऊर्जा, स्टैमिना और फोकस को बेहतर समझने में मदद करता है। अपनी सेहत को और बेहतर बनाने के लिए, इस जानकारी को डॉक्टर की सलाह से और सशक्त बनाएं।

To function at our best every day, our body needs three non-negotiables
ENERGY, STAMINA & FOCUS

3 Foundation Pillars of Daily Health



Body feels tired as the day begins
जब दिन शुरू होने से पहले शरीर थका हुआ लगे...

If, Even Rest Can't Reboot.
आराम के बाद भी तरोताजा नहीं लगता...

ENERGY
(ऊर्जा)



Illness like cold flu that once passed quickly, now take time to heal.
साधारण बीमारियाँ खासी जुकाम भी अब समय लेते हैं ठीक होने लगे...

Climbing Stairs Feels Like Climbing Everest.
सीढ़ियाँ चढ़ना एवरेस्ट फतह करने जैसा लगे...

STAMINA
(आंतरिक ताकत)



Forgetting small daily tasks.
छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं...

Start Many Tasks but Finish None.
अक्सर कई काम शुरू होते हैं, पर पूरा कोई नहीं होता...

FOCUS
(एकाग्रता)



Body's Daily Warning Signs
शरीर द्वारा दिए गए के थकावट के संकेत



Internal Power Signals
थकावट से पहले शरीर की चेतावनी



Mind's Way of Asking for Support
मानसिक थकान के छिपे हुए संकेत



Introducing 




CELIN GOLD

Advanced Antioxidant + Multivitamin + Multimineral + Amino Acid Formula

More than a Multivitamin..., it's Complete ESF Nutrition

Comprehensive Health Benefits Of Celin Gold



 <p>Energy Boosts energy with herbal adaptogens and B-vitamins</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Taurine - Muscle performance • Ginseng Extract - Improves mental and physical endurance • Vitamin B Complex + Iron + Magnesium - Supports neuromuscular balance and fights tiredness
 <p>Stamina Enhances stamina with amino acids and antioxidants</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Branched-Chain Amino Acids (BCAAs) + L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine - Support muscle recovery • L-Lysine + L-Threonine + DL-Methionine - Supports bone strength, and stamina • Vitamin C + D3 + Zinc + Selenium - Combination supports endurance and fast recovery from infections or Fatigue
 <p>Focus Improves focus with neuro formula and mood support</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Omega-3 Fatty Acids - Support memory, brain function, and concentration. • L-Tryptophan + L-Phenylalanine Biotin + Folic Acid + Iodine + Vitamin A - Promoting mental clarity, motivation, and emotional stability. Brain cell production, and cognitive performance in all age groups

"Roz Ki Zindagi Ka Roz Ka Support – CELIN GOLD"

**Shift from Supplement
to ESF Solution.....**

- **33 Scientifically Proven Ingredients**
- **Ideal for Prevention, Recovery & Performance Boost**
- **Targeted approach for Energy, Stamina & Focus**

Dosage
1 Tablet per Day before or after meals or as directed by Physician



1. Ginseng Extract – Boosts energy & focus. <https://www.healthline.com/nutrition/ginseng-benefits> 2. Omega-3 Fatty Acids – Brain & heart health. <https://www.healthline.com/nutrition/17-health-benefits-of-omega-3>
 3. Vitamins B1–B6, A & C – Energy metabolism & immunity. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK114309/> 4. Vitamin D3, E, B12 & Biotin – Focus, nerve & skin health. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/> And <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482360/>
 5. Essential Amino Acids – Muscle recovery & stamina. <https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-017-0177-6> 6. Key Minerals (Fe, Zn, I, Cu, Mg, Mn, Se) – Recovery, immunity, stamina. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7353379/>